


The functions of commercial banks can be divided into three main groups (प्रधान कार्य)



Primary functions (प्राथमिक कार्य)

व्यापारिक बैंक के मुख्य प्राथमिक दो कार्य हैं - जमा स्वीकारना व ऋण देना (accepting deposits and lending money are the two primary functions of commercial bank.)

accepting deposits (जमा स्वीकार करना) → The

Primary function of every commercial bank is to accept deposits from the public. They accept deposits from every class and from every source. To attract savings - the banks accept mainly three types of deposits -

एक बैंक को सबसे महत्वपूर्ण कार्य तथा पृष्ठभूमि है कि वह उन लोगों के जमा को स्वीकार करता है जो आपस में वचन से व्याज स्वीकार अथवा चोरी के डर से अपने-अपने जमा रखते हैं। बैंक समाज के सभी वर्गों के लोगों (जमा) को स्वीकार करने के लिए बैंक मुख्य



(मुख्य रूप से) तीन प्रकार के जमा खातार करती है।

I) Current or Demand Deposits (न्याय अथवा मौजजमा)

Demand deposits also known as current deposits. Demand deposits are those deposits which can be withdrawn by the depositor at any time by means of cheque or otherwise. These can be withdrawn by any number of times. No interest is paid on such deposits. These deposits are made by businessmen to carry out their day to day transactions. These deposits are payable on demand and therefore are called demand deposits.

मौजजमा खाते में हम न्याय खाता भी करते हैं इस खाते में जमाकर्ता किसी भी संख्या में राशि निकाल सकता है - चेक और इतर द्वारा। आमतौर पर इन खातों पर ब्याज नहीं दिया जाता है। ये जमाकर्ता की इस पर कुछ सेवा खर्च वकफा देना पड़ता है। इस तरह के खाते व्यावसायिक व व्यापारिक कार्यों के लिए होते हैं। जिन्हें एक दिन में कई गुणतम करने होते हैं। इस खाते में मौज करने पर ब्याज जमा राशि नहीं है। इसलिए इसे मौजजमा या मौजजमा वायिक्त भी कहते हैं।

II) Saving Bank Deposits (Saving Bank deposits) -  
Saving accounts deposits are those deposit



on the withdrawal of which bank places restrictions. A minimum balance needs to be maintained in saving accounts, banks offer some interest on these accounts. cheque <sup>draft</sup> facility <sup>A.T.M</sup> are provided to the depositors.

(ii) fixed deposits accounts. (निरिचतकालीन बैंक जमा खाता)

Fixed deposits are those deposits which can be withdrawn only after to expiry of certain fixed period. Say a few months or a few years. Fixed deposits are maintained both by firms and households. The rate of interest offered on term deposits are maintained by both by firms and households. No cheque facility available on these deposits. Interest rate offered on term deposits depends on the time period.

iii) वक्त खाता →

उक्त खाता वह खाता है जहाँ बैंक जमा धनराशि निकालने पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। एक निश्चित धनराशि की आवश्यकता खाता की चाल रखने के लिए आवश्यक होती है। बैंक एक निश्चित व्याज दर को जमा करने पर जमाकर्ताओं को देता है। कुछ खातों, व. ए.टी.एम की जमाकर्ता को भी जारी है।



ऋण देना (Financing) व. व्यापारिक बैंक द्वारा मध्यवर्ती कार्य ऋण देना है व बैंक के आय का मुख्य स्रोत है। बैंक उत्पादक कार्य तथा उपभोग कार्य दोनों ही उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करती है। अमाकृतिक ऋण एक निश्चित धनराशि बैंक अपने पास रखने के पश्चात् शर्तित उधार के रूप में उधारकर्ताओं को देती है। बैंक उधारकर्ताओं को ऋण देने के बदले में अपने पास पंजीत मूल्य में ऋण से जुमानत (Secured) अपने पास रखता है बैंक विभिन्न प्रकार के ऋण देते हैं।

Lending Money is another primary function of Commercial banks. This is in fact main source of their income. Commercial banks offer loans to firms and households and there by earn interest. A certain proportion of the deposits received by the banks is kept as reserve and the rest is given as loans. Banks give loans mostly for Productive purpose on approved securities. Banks advance following types of loans :-